

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.10.2020 जनपद देवरिया\*

दिनांक 11.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

\*01-कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 06 अभियोग पंजीकृत कर 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, 80 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट।\*

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर दबिस व चेकिंग करते हुए कुल 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 06 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 80 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया एवं लगभग 1500 लीटर लहन नष्ट किया गया। उक्त अभियान अभी जारी है।

**\*02. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 11.10.2020 को थानाध्यक्ष तरकुलवा के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर सेमरहवा तिराहा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.विकास गोड पुत्र सुरेश गोड सा0 तेतरिया थाना विजयीपुर गोपालगंज बिहार बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*03. थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 11.10.2020 को थानाध्यक्ष मईल के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बरेजी तिराहा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01. जयराम यादव पुत्र स्व0 भरोसे सा0 बेलवाडीह थाना मईल, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*04- थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया\***

दिनांक 11.10.2020 को थानाध्यक्ष सलेमपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर नदावर पुल के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके द्वारा अपना नाम पता सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री यादव सा0 मठिया टोला मझौलीराज थाना सलेमपुर, देवरिया बताया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*05.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\***

दिनांक 11.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ **थाना बनकटा-** मु0अ0सं0-153/2020 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डीपी ऐक्ट 01.निर्मला देवी पत्नी स्व0 रामजी सा0 धरहनिया थाना बनकटा, देवरिया।

**\*06. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 11.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 16 सीआरपीसी के अन्तर्गत 30 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*07. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 11.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 291 वाहनों से 232900 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

